



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 ज्येष्ठ 1931 (श0)  
(सं0 पटना 208) पटना, मंगलवार, 26 मई 2009

पटना उच्च न्यायालय, पटना

अधिसूचना  
20 मई 2009

सं० 237 (नियम) — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना “पटना उच्च न्यायालय पदाधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा शर्त एवं आचरण) नियमावली, 1997” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

1. यह नियम ‘पटना उच्च न्यायालय पदाधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा शर्त एवं आचरण) नियमावली, 1997, नवम् संशोधन नियमावली, 2009 कहलायेंगे।
2. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
3. भाग — VII में नियम 9 एवं 10 में संशोधन :—

(क) वर्तमान नियम 9 के प्रथम कंडिका को निम्नलिखित प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाय:—

“9, अनुसूचित जाति इत्यादि के लिए आरक्षण — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों एवं विकलांगों के पक्ष में ‘स्थापना’ में विभिन्न कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा, समय-समय पर, विधायी अधिनियमिति का समुचित सम्मान करते हुए, निर्गत आदेश तथा बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल द्वारा, इस विषय पर समय-समय पर, निर्गत आदेश के अनुसार होगा।”

(ख) वर्तमान नियम 10 निम्नलिखित प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाय:—

“10, “सीधी भर्ती के चरण में ..... “शब्दों के पहले “न्यायालय की स्थापना में तृतीय वर्ग के सभी पदों में कुल रिक्तियों का एक प्रतिशत आरक्षित होगा” के स्थान पर “न्यायालय की स्थापना में तृतीय वर्ग के सभी पदों पर उपयुक्त प्राथमिकता दिया जा सकता है” प्रतिस्थापित किया जाय।”

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,  
बिधु भूषण पाठक,  
महानिबंधक।

*The 20th May 2009*

No. 237 (Rules) —In exercise of the powers conferred by Clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, the Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna makes the following amendments in 'The Patna High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1997:-

1. These Rules shall be called 'The Patna High Court Officers and Staff (Condition of Service and Conduct) Rules, 1997, 9<sup>th</sup> Amendment Rules, 2009.
2. The amendment shall come into force with immediate effect.
3. Amendment in Rules 9 and 10 in Part – VII :-
  - (a) Substitute the existing 1<sup>st</sup> Para of Rule 9 with the following:-
 

“9. Reservation for Scheduled Castes etc. – Reservation for direct recruitment to the various categories of posts in the 'Establishment' in favour of the scheduled castes, scheduled tribes and O.B.C. candidates and handicapped shall be in accordance with the orders issued by the Chief Justice from time to time having due regard to the legislative enactment and orders issued by the Governor of Bihar from time to time on the subject.”
  - (b) Substitute the existing Rule 10 with the following:-
 

“10. Substitute the words '**Suitable weightage may be given in all Class III posts in the establishment of the Court**' for the words '**one per cent of vacancies in all Class III posts in the establishment of the Court shall be reserved**' before the words '**at the stage of direct recruitment \* \* \***'

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
 BIDHU BHUSHAN PATHAK,  
*Registrar General.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 208-571+100-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**